

प्रेस विज्ञप्ति

सैनिक कल्याण विभाग तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 'सशस्त्र सेना ध्वज दिवस' मनाया

पुणे, 8 दिसंबर, 2021 : सैनिक कल्याण विभाग और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा 7 दिसंबर, 2021 को बैंक के प्रधान कार्यालय लोकमंगल, पुणे में सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया गया। सशस्त्र सेना ध्वज दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्री प्रमोद बबनराव यादव, आईएएस, निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य थे और उनके साथ सैनिक कल्याण प्रशासनिक विभाग के कर्नल आर. आर. जाधव भी उपस्थित थे। इस समारोह में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के श्री पी. आर. खटावकर, महाप्रबंधक, वसूली व विधि, श्री विवेक घाटे, महाप्रबंधक, एसएएमवी, श्री एम. ए. काबरा, महाप्रबंधक, प्राथमिकता, श्री आर. एस. बंसल, महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन, कैप्टन रवि नायर, उप महाप्रबंधक, निगमित सेवाएँ विभाग और मेजर राधेश्याम, सहायक महाप्रबंधक व मुख्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थे।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय सहित पुणे क्षेत्र के स्टाफ सदस्यों द्वारा सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के अवसर पर स्वेच्छा से एक लाख पंद्रह हजार रुपये की राशि का अंशदान दिया और यह राशि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से महाप्रबंधकों द्वारा श्री प्रमोद बबनराव यादव, आईएएस को सौंपी गई।

श्री प्रमोद बबनराव यादव, आईएएस, निदेशक, सैनिक कल्याण द्वारा इस सराहनीय कार्य के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दिखाई गई सद्भावना की सराहना की और सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य को दिए गए सभी सहयोग के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री हेमंत टम्टा को हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक श्री ए. बी. विजयकुमार द्वारा की गई पहल की भी सराहना की। उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सैनिक कल्याण विभाग के लंबे समय से चले आ रहे बैंकिंग संबंधों को याद किया।

श्री आर. एस. बंसल, महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन) द्वारा सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित स्टाफ सदस्यों को सम्मानित किया गया। श्री पी. आर. खटावकर और श्री एम. ए. काबरा, महाप्रबंधकगण द्वारा सशस्त्र बल के प्रयासों और बलिदानों की सराहना की और राष्ट्र की रक्षा के प्रति समर्पण, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए सेवारत और तत्पर सैनिकों का आभार व्यक्त किया। मेजर राधेश्याम, सहायक महाप्रबंधक व मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया और कैप्टन रवि नायर, उप महाप्रबंधक, निगमित सेवाएँ द्वारा आभार प्रदर्शन किया गया।